



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2414]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 15, 2012/अग्रहायण 24, 1934

No. 2414]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 15, 2012/AGRAHAYANA 24, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2915(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1374(अ), तारीख 18 जून, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के 82+000 कि.मी. से 134+500 कि.मी. (किरतपुर-बिलासपुर सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 9 जुलाई, 2012 को "हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी)" और "दैनिक जागरण (हिन्दी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के 82.000 से 134.500 कि.मी. तक (किरतपुर - बिलासपुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	संकेत संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों / हितवद्द व्यक्तियों के नाम
				उपविभाजन से पहले	उपविभाजन के बाद				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	बिलासपुर	1. श्री नैना देवी	(1) गारा	142	142/1	निजी	बंजर कदीम	0.0263	गम्भी पुत्र गैहणू पुत्र देवीया स्थानीय वासी
				136	136/1	निजी	खडैतर	0.0715	कुल भाग 20
				137	137/1	निजी	बंजर कदीम	0.0188	गुरदास सिंह, प्रीतम सिंह, शेर सिंह भाग बराबर 15 भाग पुत्र व श्रीमती हिरो 1 भाग
							जोड़-	0.0903	पत्नी विशना पुत्र निकू गुरपाल सिंह, हरपाल पुत्र व श्रीमती जसविन्द कौर पुत्री व श्रीमती भजन कौर पत्नी स्व० सुरजीत सिंह पुत्र विशना भाग बराबर 4 भाग स्थानीय वासी
				134	134/1	निजी	बंजर कदीम	0.0188	मखनसिंह, महेन्द्र सिंह, गुरचरन सिंह पुत्र कर्म चन्द पुत्र बेली राम भाग बराबर स्थानीय वासी
				419	603/419/1	निजी	बंजर कदीम	0.0113	कुल भाग 3
									कुलदीप सिंह, दलवीर सिंह, पुत्र गरजा पुत्र कपूरा भाग बराबर 2 भाग प्रवीण कुमार पुत्र विजय पाल पुत्र गरजा 1 भाग निवासी घर
				398	398/1	निजी	गैर मु० कोठा	0.0075	कुल भाग 2
						निजी	गैर मु० सड़क	0.0038	अमीत, गौरव पुत्र रोशन लाल पुत्र शिवदयाल भाग बराबर 1 भाग रोडा पुत्र डेरू पुत्र गोपी 1 भाग स्थानीय वासी
						निजी	वाराणी	0.0753	
						निजी	बंजर कदीम	0.0865	
				200	200	निजी	गैर मु० मशीन	0.0225	तीर्थ राम पुत्र गिरधारी पुत्र मुनसी स्थानीय वासी
				412/1	412/1	निजी	बंजर कदीम	0.0488	
				411/1	411/1	निजी	बंजर कदीम	0.0113	
				419	604/419/1	निजी	बंजर कदीम	0.0715	
				419	606/419/1	निजी	बंजर कदीम	0.0452	
							जोड़-	0.1994	
				407/2	407/2/1	निजी	बंजर कदीम	0.0113	कुल 2 भाग
									रमेश चन्द पुत्र अमरनाथ पुत्र हरीया 1 भाग प्रवीण कुमार, उमादत्त, मनीश कुमार पुत्र व श्रीमती राम आसरी पत्नी स्व० ठाकर दास पुत्र अमरनाथ भाग बराबर 1 भाग स्थानीय वासी
				419	605/419/1	निजी	बंजर कदीम	0.0113	राम कुमार पुत्र प्रीता पुत्र हरीया स्थानीय वासी
				408	408/1	निजी	बंजर कदीम	0.0075	प्रेम लाल, तेष कुमार, राजेन्द्र कुमार, राम कुमार, पुत्र प्रीता पुत्र हरीया भाग बराबर स्थानीय वासी
				272	272/1	निजी	खडैतर	0.0113	कुल भाग 180
									अमीत, गौरव पुत्र रोशन लाल पुत्र शिवदयाल भाग बराबर 20 भाग रोडा पुत्र डेरू पुत्र गोपी 40 भाग जयकिशन, जयशाम पुत्र दौलत राम पुत्र मुनसी भाग बराबर 18 भाग मनीष कुमार, विजय कुमार, कर्म चन्द पुत्र व श्रीमती रामदुलारी पत्नी स्व० गोपाल चन्द पुत्र दौलत राम भाग बराबर 9 भाग तीथ राम पुत्र गिरधारी पुत्र मुनसी 27 भाग देश राज पुत्र श्रीमती लक्ष्मी पुत्री मुनसी 6 भाग रमेश चन्द पुत्र अमरनाथ पुत्र हरीया 15 भाग प्रवीण कुमार, उमा दत्त, मनीश कुमार पुत्र व श्रीमती राम आसरी पत्नी स्व० ठाकर दास पुत्र अमरनाथ भाग बराबर 15 भाग प्रेम लाल, तेष कुमार, राजेन्द्र कुमार, राम कुमार पुत्र प्रीता पुत्र हरीया भाग बराबर 30 भाग स्थानीय वासी
				393	393/1	निजी	बंजर कदीम	0.0941	श्रीमती तीर्थी पुत्री सोहनू पुत्र पोपो स्थानीय वासी
				556/403	556/403/1	निजी	बंजर कदीम	0.3286	कुल भाग 3
									जगदीश, सतपाल उर्फ सत्यपाल, राज कुमार, रामेश्वर पुत्र मनशा पुत्र पोपो भाग बराबर 1 भाग श्रीमती तीर्थी पुत्री सोहनू पुत्र पोपो 1 भाग ब्रह्मा नन्द, रामानन्द, वाला राम, परमा नन्द पुत्र व श्रीमती कृष्णा देवी, श्रीमती सौणदेई उर्फ राणे देई पुत्रियाँ रामरखा पुत्र पोपो भाग बराबर 1 भाग स्थानीय वासी
				186	186	निजी	बंजर कदीम	0.0413	रामप्यारा, रूप लाल पुत्र बालक राम पुत्र जीवा भाग बराबर स्थानीय वासी
				188	188/1	निजी	गैर मु० आबादी	0.0038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				567/414	567/414/1	निजी	जोड़-- बंजर कदीम	0.0452 0.1279
								कुल भाग 28 श्याम लाल, सुच्या राम, दलेर, राम देव भाग बराबर 1 भाग पुत्र व श्रीमती सत्या देवी 6 भाग पत्नी स्व० पृथ्वी सिंह पुत्र दुर्गा श्रीमती प्रीती पुत्री दुर्गा पुत्र निहाता 7 भाग स्थानीय वासी सीता राम, देश राज, चमन लाल, बाल कृष्ण पुत्र व श्रीमती जमना देवी पुत्री श्रीमती चिरागो पुत्री दुर्गा भाग बराबर 7 भाग निवासी दौलोबाल त० आनन्दपुर साहिब रोशन, प्रभू पुत्र श्रीमती प्रकाशी पुत्री दुर्गा भाग बराबर 7 भाग स्थानीय वासी
				404/2	404/2	निजी	बंजर कदीम	0.0075
				404	600/404	निजी	बंजर कदीम	0.0301
				182	182/3	निजी	खडैतर	0.2333
				179	179/1	निजी	खडयातर	0.1505
						निजी	बंजर कदीम	0.0715
				438	438/1	निजी	खडयातर	0.0790
							जोड़--	0.3010
				412	602/412	निजी	बंजर कदीम	0.0226
				187	187/1	निजी	गैर मु० गोदाम	0.1392
				404	598/404/1	निजी	गैर मु० पेट्रोल पम्प	0.0301
				412	601/412	निजी	गैर मु० पेट्रोल पम्प	0.0376
							जोड़--	0.0677
				196	196/1	निजी	आबादी देह	0.0075
				545/100	545/100	सरकार	गैर मु० चैक पोस्ट	0.1880
				397	397	सरकार	गैर मु० सड़क	6.0650
				552/401	552/401	सरकार	गैर मु० सड़क	0.0600
				402	402	सरकार	गैर मु० सड़क	0.5003
				409	409	सरकार	गैर मु० सड़क	0.0413
				410	410	सरकार	गैर मु० सड़क	0.3460
				559/411	559/411	सरकार	गैर मु० सड़क	0.2105
				561/412	561/412	सरकार	गैर मु० सड़क	0.0225
				563/413	563/413	सरकार	गैर मु० सड़क	0.2105
				413/1	413/1	सरकार	गैर मु० सड़क	0.0488
				413/2	413/2	सरकार	गैर मु० सड़क	0.0038
				566/414	566/414	सरकार	गैर मु० सड़क	0.2445
				439	439/1	सरकार	चरान्द	0.2069
				440	440/1	सरकार	चरान्द	0.0715
				442	442/1	सरकार	चरान्द	0.3123
				100	100/5	सरकार	चरान्द	0.4929
				544/100	544/100	सरकार	चरान्द	0.0600
				135	135/2	सरकार	चरान्द	0.5230
				147	147/1	सरकार	चरान्द	0.0075
				149	149/1	सरकार	चरान्द	0.1016
				181	181/1	सरकार	चरान्द	0.0865
				199	199	सरकार	चरान्द	0.2408
				276	276/1	सरकार	चरान्द	0.1166
				388	388/2	सरकार	चरान्द	0.9820
				389	389/1	सरकार	चरान्द	0.2145
				391	391/2	सरकार	चरान्द	0.2671
				394	394	सरकार	चरान्द	0.0375
				395	395	सरकार	चरान्द	0.0450
				396	396/1	सरकार	चरान्द	0.0263

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				399	399/1	सरकार	चरान्द	0.0865
				553/401	553/401	सरकार	चरान्द	0.0263
				416	416/1	सरकार	चरान्द	0.0677
				420	420/1	सरकार	चरान्द	0.0452
					420/2	सरकार	चरान्द	0.0226
				565/413	565/413/1	सरकार	चरान्द	0.0075
				554/401	554/401/1	सरकार	चरान्द	0.3311
				197	197/1	सरकार	गैर मु० रास्ता	0.0038
				271	271	सरकार	रास्ता	0.0753
				198	198	सरकार	गैर मु० जोहडी	0.0113
							जोह—	12.4127
				555/403	555/403/1	सरकार	गैर मु० टावर	0.0038
			(2) शी	20	20/1	निजी	कोहली	0.0301
								सर्व श्रीमती कौशल्या रतनी, कमला, प्रकाशो, सत्या पुत्रियां व जोगिन्दो पत्नी स्व० नौनिहाल सिंह पुत्र भजनू भाग बराबर स्थानीय वासी
								जोगिन्द सिंह, हरीपाल सिंह पुत्र नौनिहाल, पुत्र भजनू भाग बराबर निवासी भुवाई गैर मौरुशियान
				19	19	निजी	वारानी	0.0113
				21	21	निजी	वारानी	0.0790
				23	23/1	निजी	वारानी	0.0376
							जोह—	0.1279
				18	18/1	निजी	वारानी	0.0075
				22	22	निजी	वारानी	0.0113
							जोह—	0.0188
								कुल भाग 5880 महेन्द्र सिंह 553 भाग पुत्र व श्रीमती धनकौर उर्फ भिन्दू पुत्री व श्रीमती तीर्थ कौर भाग बराबर 210 भाग पत्नी स्व० तारा सिंह पुत्र रामकर्ण सुरेन्द्र सिंह 868 भाग पुत्र व श्रीमती कृष्णी 329 भाग पत्नी स्व० रामकर्ण पुत्र दुर्गादयाल रतन सिंह, राम स्वरूप पुत्र दुर्गादयाल पुत्र भजनू भाग बराबर 3920 भाग स्थानीय वासी
				34	34/1	निजी	वारानी	0.0263
					34/2	निजी	वारानी	0.0414
							जोह—	0.0677
								कुल भाग 906 पवन सिंह, रणजीत सिंह पुत्र रतन सिंह पुत्र दुर्गादयाल भाग बराबर 1 भाग रामदिता, सूरत राम भाग बराबर 592 भाग पुत्र व राधे श्याम 302 भाग पुत्र कांशी राम पुत्र घनईया बलवीर सिंह पुत्र बंशित सिंह पुत्र लखासिंह 1 भाग बलवीर सिंह पुत्र अमरसिंह पुत्र देवीदिता 4 भाग सतीश कुमार, राजेश कुमार पुत्र बाबूराम पुत्र कांशीराम भाग बराबर 2 भाग उप-स्वास्थ्य केन्द्र 4 भाग
				4	4/1	निजी	बंजर कदीम	0.1806
				6	6/1	निजी	बंजर कदीम	0.4402
							जोह—	0.6208
								कुल भाग 2834 रामदिता 878 भाग पुत्र व सूरत राम 851 भाग पुत्र व राधे श्याम 821 भाग पुत्र कांशी राम पुत्र घनईया स्थानीय वासी श्रीमती आशा देवी पत्नी बालकराम पुत्र रामलाल 84 भाग निवासी रोपा तहसील बिलासपुर सदर जिला बिलासपुर
				9	9/1	निजी	बंजर कदीम	0.0263
								श्रीमती अमरदेई पत्नी खुशी राम पुत्र शिव राम स्थानीयवासी
								सुख राम, सुखदेव, सुखनाथ, सन्तराम पुत्र दसीन्धी राम पुत्र अनन्त राम निवासी भुवाई गैर मौरुशियान
				17	17/1	निजी	बंजर कदीम	0.1279
						निजी	बंजर कदीम	0.0188
				16	16/1	निजी	वारानी	0.0753
								कुल भाग 6 श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी हरीपाल सिंह पुत्र नौनिहाल सिंह 5 भाग श्रीमती रत्नी पत्नी स्व० हीरू पुत्र चिड़वा 1 भाग स्थानीय वासी
				15	15/1	सरकार	नाला	0.0113
								हिमाचल प्रदेश सरकार
				25	25	सरकार	गैर मु० सड़क	2.0355
								हिमाचल प्रदेश सरकार
				5	5/2	सरकार	चरान्द	0.3537
				24	24/1	सरकार	चरान्द	0.3236
				773/35	773/35/1	सरकार	चरान्द	0.0301
					773/35/2	सरकार	चरान्द	0.1844
							जोह—	0.8917
								कब्जा सवयम् हिमाचल प्रदेश सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार जंगल चरान्द दैहाती

1	2	3	4	5		6	7	8	9
			(3) भुआई	451	451/1	निजी	बंजर कदीम	0.0263	सुखराम उर्फ भोला राम पुत्र देवी दिता पुत्र काहना स्थानीय वासी
				456	456/1	निजी	बंजर कदीम	0.0113	कुल भाग 2 कृष्णदयाल, प्रेम लाल, कर्म चन्द, छोटा राम पुत्र व सर्व श्रीमती बग्गो देवी कुमारी भमता देवी पुत्रियां व श्रीमती शिनो देवी पत्नी व मेहर सिंह पुत्र स्व० गम्भो पुत्र समुन्दु भाग बराबर 1 भाग हरवंश लाल पुत्र रामरक्षा पुत्र समुन्दु 1 भाग स्थानीय वासी
				427	427/1	निजी	वारानी	0.0075	सुखराम, सुखदेव, सुखनाथ, सन्त राम पुत्र व श्रीमती रोशनी देवी पत्नी स्व० दत्तोनधी पुत्र अन्नत राम भाग बराबर स्थानीय वासी
				448	448/1	निजी	वारानी	0.2032	
							जोड़—	0.2107	
				453	453	निजी	वारानी	0.2258	कुल भाग 5
						निजी	गैर मु० बीड़	0.0075	सर्व श्रीमती चिन्ती, निक्की, शकुन्तला पुत्रियां श्रीमती भहन्ती पुत्री गैहणू भाग बराबर 1 भाग बग्गा राम पुत्र गणू पुत्र परस राम 4 भाग स्थानीय वासी
				424	424/1	निजी	खडैतर	0.0640	कुल भाग 132 जगतपाल पुत्र बगा राम पुत्र गैहणू 11 भाग मथरा पुत्र रोहला पुत्र हीरा 88 भाग कुलभूषण कुमार पुत्र मनोहर लाल पुत्र नानक 1 भाग श्रीमती सविता रानी पत्नी नीलम कुमार पुत्र देवी प्रसाद 32 भाग स्थानीय वासी
				449	449/1	निजी	वारानी	0.0865	लेखराम पुत्र गंगा राम पुत्र परस राम स्थानीय वासी
				452	452/2	निजी	वारानी	0.1806	लेख राम रघु पुत्र गंगा राम पुत्र परस राम भाग बराबर
				454	454	निजी	आबादी	0.0150	स्थानीय वासी
							जोड़—	0.1956	
				399	399/1	निजी	वारानी	0.2596	कुल 48 भाग
				423	423/1	निजी	खडैतर	0.0075	रणजीत सिंह, दर्शन कुमार, श्याम लाल पुत्र व श्रीमती निर्मला देवी भाग बराबर 25 भाग पुत्री व स्थानीय वासी गोरखू 5 भाग पुत्र दयाराम पुत्र रघुपत, कृष्ण दास पुत्र व श्रीमती शितो पुत्री श्रीमती निक्की पुत्री रघुपत भाग बराबर 6 भाग निवासी तिहरली बग्गा पुत्र सिंहणू पुत्र कलिया 6 भाग स्थानीय वासी पुनू, सत्तराम उर्फ निक्कू पुत्र शिवराम पुत्र कलिया भाग बराबर 6 भाग निवासी तियूण
					423/2	निजी	खडैतर	0.0075	
							जोड़—	0.2747	कुल भाग 8 रणजीत सिंह, गोरखू, दर्शन कुमार, श्याम लाल, कुमारी निर्मला देवी, श्रीमती जानो देवी भाग बराबर 6 भाग बगा 1 भाग पुनू, सन्त राम उर्फ निक्कू भाग बराबर 1 भाग हिस्सादारान बायान हेमराज पुत्र गणेशा पुत्र जिउणू मुख्त्री कब्जा मुख्त्री
				422	422/1	सरकार	गैर मु० चोई	0.0414	हिमाचल प्रदेश सरकार
				426	426/1	सरकार	गैर मु० चोई	0.0301	
							जोड़—	0.0715	कब्जा सवयं
				439	439/1	सरकार	सड़क	1.7534	हिमाचल प्रदेश सरकार
				393	393/1	सरकार	सड़क	0.1204	
							जोड़—	1.8738	लोक निर्माण विभाग
				370	370/1	सरकार	चरान्द	0.1768	सरकार हिमाचल प्रदेश
				425	425/1	सरकार	चरान्द	0.8993	
				455	455	सरकार	चरान्द	0.6283	चरान्द जंगल देहाती
				464	464/1	सरकार	चरान्द	0.5042	
							जोड़—	2.2086	
			(4) मेहला	225	225/1	निजी	वारानी	0.0226	कुल भाग 2
						निजी	बीड़	0.0151	काशीराम पुत्र सीहणू पुत्र मगनी 1 भाग रघुवीर सिंह, बलवीर सिंह, रोशन लाल पुत्र व श्रीमती जानकी पत्नी स्व० बेलीराम पुत्र सीहणू भाग बराबर 1 भाग स्थानीय वासी
				277	277/1	निजी	बजर कदीम	0.0790	शम्भू पुत्र खजाना पुत्र घुरकन स्थानीय वासी
				278	278	निजी	बजर कदीम	0.0753	
				280	280/1	निजी	बजर कदीम	0.1317	
					280/3	निजी	बजर कदीम	0.0226	
							जोड़—	0.3085	
				212	212/1	निजी	बगीचा वारानी	0.0301	अमर नाथ पुत्र व श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्व० लच्छमण पुत्र गंगाराम भाग बराबर स्थानीय वासी
				229	229/1	निजी	वारानी	0.0753	कुल भाग 5
						निजी	बीड़	0.0452	अमर नाथ 3 भाग पुत्र व श्रीमती देवकी देवी 2 भाग पत्नी स्व० लच्छमण पुत्र गंगाराम स्थानीय वासी
				279	279/1	निजी	बंजर कदीम	0.0452	
						निजी	बीड़	0.0226	
							जोड़—	0.1881	

4634 GI/12-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				227	227/1	निजी	वाराणी	0.0339	हरी राम पुत्र गोकल पुत्र हजारू स्थानीय वासी
						निजी	बीड़	0.0188	कुल भाग 4
						निजी	खड़यातर	0.0151	काशी, निका पुत्र सीहणू पुत्र मगनी भाग बराबर
									1 भाग स्थानीय वासी रामलोक, वसन्ता पुत्र
									दुडिया पुत्र हजारू भाग बराबर 1 भाग सीहणू
									मुनरी पुत्र मगनी पुत्र तुना भाग बराबर 2 भाग
									स्थानीय वासी गैर मौरसीयान काश्त काशी
									त्रिवका समभाग 2 भाग वसन्ता रामलोक
									समभाग 2 भाग बाबू राम जयकिशन राम लाल
									पुत्र गम्बो समभाग 1 भाग सीहणू मुनरी
									समभाग 6 भाग रघुवीर बलवीर सिंह रोशन
									लाल पुत्र देली राम समभाग 1 भाग गैर
									मौरसी
				307/236	307/236/1	निजी	वाराणी	0.0753	सदाराम पुत्र अनन्तराम पुत्र चन्दू स्थानीय वासी
						निजी	बीड़	0.0188	
					307/236/2	निजी	वाराणी	0.0151	
					307/236/3	निजी	वाराणी	0.0075	
				303/154	303/154/1	निजी	बंजर कदीम	0.3763	
						निजी	गैर मु० चौई	0.1618	
						निजी	बीड़	0.1881	
				168	168/1	निजी	वाराणी	0.0753	
						निजी	गैर मु० बीड़	0.0226	
					168/2	निजी	वाराणी	0.0038	
					168/3	निजी	वाराणी	0.0075	
				243	243	निजी	वाराणी, रास्ता, बीड़	0.0488	
							जोड़-	1.0009	
				153	153/1	निजी	बंजर कदीम	0.0677	भाग सिंह पुत्र गंगाराम पुत्र वजीरू स्थानीय वासी
				169	169/2	निजी	वाराणी	0.0602	
				173	173/1	निजी	बंजर कदीम	0.0151	
				306/236	306/236	निजी	वाराणी	0.0638	
				237	237	निजी	वाराणी बीड़	0.0413	
				238	238	निजी	वाराणी	0.0150	
				239	239	निजी	वाराणी, बीड़ खड़यातर	0.0563	
				244	244/1	निजी	वाराणी	0.0075	
							जोड़-	0.3273	
				246	246/2	निजी	वाराणी	0.0339	निका पुत्र गोविन्दा पुत्र कपूर स्थानीय वासी
						निजी	आबादी	0.0038	
						निजी	बीड़	0.0113	
				233	233/1	निजी	वाराणी	0.0038	
							जोड़-	0.0527	
				245	245	निजी	वाराणी, बीड़, आबादी	0.0338	श्रीमती निर्मला पत्नी नन्दलाल पुत्र गुलाबा स्थानीय वासी
				171	171/2	निजी	वाराणी	0.0753	कुल भाग 2
									भाग सिंह पुत्र गंगाराम पुत्र वजीरू 1 भाग
									श्रीमती निर्मला पत्नी नन्दलाल पुत्र गुलाबा 1
									भाग स्थानीय वासी
									लौहका पुत्र शेरू पुत्र मोड़ू स्थानीय वासी गैर
									मौरसी
				170	170/2	निजी	वाराणी	0.0075	कुल भाग 6
				172	172/1	निजी	बंजर कदीम	0.0038	संतोष कुमार, श्याम लाल भाग बराबर 1 भाग
				240	240	निजी	वाराणी, बीड़, खड़यातर	0.0450	पुत्र व श्रीमती कमला देवी 1 भाग पत्नी स्व०
				241	241	निजी	वाराणी, बीड़, खड़यातर	0.0525	अमरनाथ पुत्र लौहका सीताराम, बालक राम
				242	242	निजी	वाराणी	0.0038	पुत्र लौहका पुत्र शेरू भाग बराबर 4 भाग
							जोड़-	0.1129	स्थानीय वासी
				302/154	302/154/1	निजी	वाराणी	0.6020	प्रेम लाल इन्दू राम, रामलाल पुत्र गोविन्द राम
						निजी	गैर मु० बीड़	0.0414	पुत्र महली राम भाग बराबर
				258	258/2	सरकार	गैर मु० चौई	0.2483	निवासी बल्ह चलोन
				181	181/1	सरकार	चौई	0.0828	सरकार हिमाचल प्रदेश
							जोड़-	0.3311	कब्जा स्वयं
				11	11/1	सरकार	चरान्द	1.5013	सरकार हिमाचल प्रदेश
					11/2	सरकार	चरान्द	0.0113	
				281	281/1	सरकार	चरान्द	0.0151	चरान्द जंगल देहाती
							जोड़-	1.5276	
				228	228/1	सरकार	गैर मु० रास्ता	0.0564	सरकार हिमाचल प्रदेश
									शारे-आम

1	2	3	4	5	6	7	8	8
			(5) धामना	201	201/1	निजी	वाराणी	0.0151
						निजी	गैर मु० बीड़	0.0113
				203	203/2	निजी	वाराणी	0.0263
						निजी	गैर मु० बीड़	0.0188
				196	196/1	निजी	वाराणी	0.0188
				202	202	निजी	वाराणी	0.0188
				231	231/1	निजी	वाराणी	0.3499
				186	186/1	निजी	वाराणी	0.0677
				197	197/1	निजी	वाराणी	0.1580
						जोड़—		0.2258
				198	198/1	निजी	बंजर कदीम	0.0075
						निजी	गैर मु० बीड़	0.0113
				187	187/1	निजी	वाराणी	0.1806
				204	204/1	निजी	वाराणी	0.0865
						निजी	बंजर कदीम	0.0151
						निजी	गैर मु० बीड़	0.0452
				235	235/1	निजी	वाराणी	0.1467
				236	236/1	निजी	वाराणी	0.0564
						जोड़—		0.2032
				229	229/2	सरकार	गैर मु० चौई	0.0188
				5	5/1	सरकार	चरान्द	1.2153
				237	237/1	सरकार	चरान्द	0.1016
					237/2	सरकार	चरान्द	0.0301
						जोड़—		1.3470
				188	188/1	सरकार	गैर मु० रास्ता	0.0151
				172	172/2	सरकार	गैर मु० रास्ता	0.0188
					172/4	सरकार	गैर मु० रास्ता	0.0226
						जोड़—		0.0564
				4	4/1	सरकार	चरान्द	0.0263
				19	19/1	निजी	गैर मु० कुहल	0.0414
			(6) समलेदू	125	125/1	निजी	वाराणी	0.0075
				133	133	निजी	कोहली	0.0113
				153	153/1	निजी	वाराणी	0.0753
						निजी	बंजर कदीम	0.1129
						जोड़—		0.2069

जोगिन्द सिंह, मदन लाल, महिन्द सिंह, सुरेन्द्र सिंह, दिला राम, बलवीर सिंह, सतपाल, सुभाष चन्द पुत्र व श्रीमती बिशन देई पत्नी स्व० दुर्गा पुत्र सुन्दर भाग बराबर स्थानीय वासी

कमल देव, अशोक कुमार पुत्र व सर्व श्रीमती निर्मला देवी, बबली देवी, चम्पा देवी, अन्ती पुत्रियां व श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व० बाबू राम पुत्र सुन्दर भाग बराबर स्थानीय वासी

कुल भाग 2 कमल देव, अशोक कुमार पुत्र व सर्व श्रीमती निर्मला देवी, बबली देवी, चम्पा देवी, अन्ती पुत्रियां व श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व० बाबू राम पुत्र सुन्दर भाग बराबर 1 भाग शम्भू पुत्र खडकू पुत्र जैण्डू 1 भाग स्थानीय वासी

कुल भाग 3 कमल देव, अशोक कुमार पुत्र व सर्व श्रीमती निर्मला देवी, बबली देवी, चम्पा देवी, अन्ती पुत्रियां व श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व० बाबू राम पुत्र सुन्दर भाग बराबर 1 भाग शम्भू पुत्र खडकू पुत्र जैण्डू 2 भाग स्थानीय वासी

जगदीश पुत्र तिखू पुत्र धनेईया स्थानीय वासी

देवी राम पुत्र व श्रीमती देवकी पुत्री गृहणू पुत्र लोहका भाग बराबर स्थानीय वासी

देवी राम पुत्र व श्रीमती देवकी पुत्री गृहणू पुत्र लोहका भाग बराबर स्थानीय वासी

जगदीश पुत्र तिखू पुत्र नामालूम स्थानीय वासी गैर भोरुशी

कुल भाग 200 देवीराम 97 भाग पुत्र व श्रीमती देवकी 100 भाग पुत्री ग्रहणू पुत्र लोहका तेलू राम पुत्र देवी राम पुत्र ग्रहणू 1 भाग विकास खण्ड सदर बिलासपुर 2 भाग

श्रीमती गीता पत्नी स्व० जीवा पुत्र चन्दू स्थानीय वासी

हरीपाल पुत्र जादू पुत्र चिड़वा स्थानीय वासी

सरकार हिमाचल प्रदेश

कब्जा स्वयं

सरकार हिमाचल प्रदेश

चरान्द जंगल देहाती

सरकार हिमाचल प्रदेश

शारे—आम

सरकार हिमाचल प्रदेश

कब्जा भाखड़ा एडमिनिस्ट्रेशन

कुल भाग 240 तुलसी पुत्र गोविन्द पुत्र कपूरा 5 भाग सुका राम पुत्र व श्रीमती सुखदेई पत्नी स्व० लेखराम पुत्र गोविन्द भाग बराबर 5 भाग जोगिन्द सिंह मदन लाल महिन्द सिंह सुरेन्द्र सिंह, दिला राम बलवीर सिंह सतपाल सुभाष चन्द 230 भाग

कुल भाग 10 गम्भो, निका पुत्र भण्डारी पुत्र जंगी भाग बराबर 5 भाग प्रेमा, गोरख नाथ, अरवण भाग बराबर 4 भाग पुत्र व श्रीमती गीता पुत्री व श्रीमती विशनू भाग बराबर 1 भाग पत्नी स्व० निकू पुत्र घेहलू स्थानीय वासी

गम्भो निका भाग बराबर हिस्सादाराण मलकीयत दहिन्दगान निकू पुत्र गौरी पुत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				23	23/1	निजी	वाराणी	0.0339	सरदारु स्थानीय वासी मलकीयत गरिन्दा
				128	128/1	निजी	कोहली	0.0113	ठाकर दास पुत्र रामसरन पुत्र तानी स्थानीय वासी
				48	48/1	निजी	वाराणी	0.0151	शकरदास पुत्र रामसरन पुत्र तानी स्थानीय वासी
				18	18/1	निजी	बजर कदीम	0.1580	विरन्द कुमार, सुरेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्का भगत राम पुत्र रामसरन भाग बराबर स्थानीय वासी
				130	130/2	निजी	गैर मु० बीड	0.0753	दलीप सिंह पुत्र रामसरन पुत्र तानी स्थानीय वासी
						निजी	कोहली	0.0263	
						निजी	गैर मु० बीड	0.0075	
							जोड़—	0.2671	
				124	124/1	निजी	वाराणी	0.0226	कुल 3 भाग लछमण पुत्र चुहड़ पुत्र कुन्दो 1 भाग रामलाल, कृष्ण लाल, कुलदीप सिंह पुत्र व श्रीमती सोमा देवी पुत्री व श्रीमती लछमी देवी पत्नी स्का छोटा पुत्र चुहड़ भाग बराबर 1 भाग अवतार सिंह, सुरेन्द्र सिंह, कमलकृष्ण पुत्र व कुमारी कशमीरी देवी कुमारी परमिला पुत्रियां व शंकर देवी पत्नी स्का देवी राम पुत्र चुहड़ भाग बराबर 1 भाग स्थानीय वासी
				135	135	निजी	कोहली	0.0113	कुल भाग 16 प्रकाश चन्द 4 भाग पुत्र व श्रीमतीगंगा देई 1 भाग पत्नी साली ग्राम पुत्र रामदिता श्रीमती ममता देवी, श्रीमती पुष्पा देवी पुत्रियां व श्रीमती सलिनदा पत्नी स्का रमेश चन्द पुत्र साली ग्राम भाग बराबर 3 भाग गोपाल सिंह, रविन्द कुमार पुत्र भगत राम पुत्र रामदिता भाग बराबर 9 भाग स्थानीय वासी
				134	134	निजी	कोहली	0.0075	भगत राम पुत्र रामदिता पुत्र कुन्दो स्थानीय वासी
				48/1	48/1/1	निजी	वाराणी	0.0527	करतार सिंह पुत्र रामदिता पुत्र कुन्दो स्थानीय वासी
				50	50/1	निजी	वाराणी	0.0151	
						निजी	गैर मु० बीड	0.0038	
				52	52/1	निजी	वाराणी	0.0075	
				132	132/2	निजी	कोहली	0.0414	
							जोड़—	0.1204	
				77	77/1	निजी	वाराणी	0.0188	राम रत्न, सोहन लाल पुत्र जियूणू पुत्र कुन्दो भाग बराबर स्थानीय वासी
				77/1	77/1/2	निजी	वाराणी	0.0865	
						निजी	वाराणी	0.0640	
						निजी	बीड	0.0226	
					77/1/3	निजी	वाराणी	0.0075	
				80	80/1	निजी	वाराणी	0.0527	
						निजी	खडैतर	0.0828	
						निजी	गैर मु० बीड	0.0113	
				137	137/2	निजी	कोहली	0.0226	
						निजी	गैर मु० बीड	0.0038	
				138	138/1	निजी	कोहली	0.0038	
							जोड़—	0.2897	
				10	10/1	निजी	वाराणी	0.0753	कृष्ण दास पुत्र रामदिता पुत्र लदूरीया स्थानीय वासी
						निजी	गैर मु० बीड	0.0151	
				13	13	निजी	गैर मु० आवादी	0.0075	
				14	14/1	निजी	वाराणी	0.1505	
						निजी	गैर मु० बीड	0.0226	
						निजी	बजर कदीम	0.0753	
				15	15	निजी	वाराणी	0.0038	
						निजी	खलवाडा	0.0038	
				25	25/1	निजी	वाराणी	0.1129	
						निजी	बीड	0.0188	
							जोड़—	0.4854	
				51	51/1	निजी	वाराणी	0.1881	कुल भाग 2 परमानन्द पुत्र जंगी पुत्र रोहली 1 भाग कमलदेव, कुलदीप पुत्र परमानन्द पुत्र जंगी भाग बराबर 1 भाग स्थानीय वासी
				136	136/2	निजी	कोहली	0.0376	
							जोड़—	0.2596	
				49	49/2	निजी	वाराणी	0.1430	कुल भाग 2 तुलसीराम पुत्र जंगीपुत्र रोहली 1 भाग सीताराम, अशोक कुमार पुत्र तुलसीराम पुत्र जंगी भाग बराबर 1 भाग स्थानीय वासी
						निजी	मकान	0.0113	
				78	78	निजी	वाराणी, बीड	0.0638	
				79	79/1	निजी	खडैतर	0.0151	
				129	129	निजी	कोहली	0.0300	
							जोड़—	0.2632	
				145	145/1	निजी	बजर कदीम	0.0564	निकू पुत्र गौरी पुत्र सरदारु स्थानीय वासी



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				149	149/1	निजी	वारानी	0.3763
						निजी	गैर मु० बीड	0.0640
								कुल भाग 144000 प्यारेलाल 3600 भाग पुत्र व श्रीमती लाजो 1800 भाग पुत्री रामसिंह पुत्र पूरण श्रीमती सनैहरू पुत्री गोविन्दा पुत्र कानू 9600 भाग रतनसिंह, जीतराम, लच्छमण सिंह, शालीग्राम, नरेणदास, वासुदेव, हुक्मचन्द पुत्र भगता पुत्र प्रभा भाग बराबर 144 भाग श्रीमती दरोपती, श्रीमती रतनी पुत्रियां प्रभा पुत्र जलहो भाग बराबर 288 भाग श्रीमती पुरनू पत्नी स्व० सैहजा पुत्र जलहो 14400 भाग श्रीमती पारबतू पत्नी स्व० गंगा पुत्र कपूरा 375 भाग जयकरण, वचना, सुखदेव, प्रकाश, ज्ञान, सरवण पुत्र व श्रीमती सुखदेई, श्रीमती कौशल्या, श्रीमती ब्यासा पुत्रियां इन्दरू पुत्र नन्दू भाग बराबर 144 भाग छागू राम, बली राम, रत्न लाल पुत्र भगतू पुत्र चिड़वा भाग बराबर 37883 भाग श्रीमती निकी पत्नी स्व० महन्तू पुत्र चिड़वा 37883 भाग हरी पाल, बशी राम पुत्र जडू पुत्र चिड़वा भाग बराबर 37883 भाग स्थानीय वासी
								कुल भाग 113649 छागू राम बली राम रत्न लाल भाग बराबर हिस्सादारान 37883 भाग हरीपाल, बशी राम भाग बराबर हिस्सादारान बजातेही 75768 भाग बनीज गैर मौरूरी 30351 भाग मिनजानिब दीगर हिस्सादारान
				11	11	निजी	आबादी देह	0.0150
				16	16/1	निजी	आबादी देह	0.0188
				148	148/1	निजी	आबादी देह	0.0038
							जोड़—	0.0376
				26	26/1	सरकार	गैर मु० चोई	0.0339
				56	56/2	सरकार	गैर मु० चोई	0.0414
				116	116/2	सरकार	गैर मु० चोई	0.0978
							जोड़—	0.1731
				7	7/1	सरकार	चरान्द	0.0790
								सरकार हिमाचल प्रदेश
								चरान्द जंगल देहाती
			(7) जामल	6	6/1	निजी	बजर कदीम	0.1091
						निजी	पत्थर	0.0376
				4	4/1	निजी	खडैतर	0.0941
						निजी	पत्थर	0.0188
				40	40/1	निजी	वारानी	0.0038
						निजी	पत्थर	0.0339
						निजी	लहासा	0.1994
				5	5/1	सरकार	गैर मु० चोई	0.0151
				43	43/2	सरकार	गैर मु० चोई	0.0151
							जोड़—	0.0301
				41	41/1	सरकार	चरान्द	0.7638
					41/4	सरकार	चरान्द	1.1852
				42	42/2	सरकार	चरान्द	0.1317
							जोड़—	2.0807
				17	17/2	सरकार	गैर मु० रास्ता	0.0188
					17/3	सरकार	गैर मु० रास्ता	0.0602
							जोड़—	0.0790
			(8) कयारिया	257/168/ 2	257/168 /1	सरकार	चरान्द	2.6564
			(9) मुनहान	84	84/1	निजी	वारानी	0.0677
				4	4/1	निजी	गैर मु० कुहल	0.0188
				47	47/1	निजी	वारानी	0.0865
							जोड़—	0.1054
				49	49/1	निजी	वारानी	0.0452
				46	46/1	निजी	वारानी	0.2145

4634 GI/12-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				78	78/1	निजी	वाराणी	0.0113
						जोड़-		0.2258
				85	85/1	निजी	बंजर कदीम	0.1731
				83	83/1	निजी	वाराणी	0.2107
						निजी	बंजर कदीम	0.0376
						निजी	खडैतर	0.0753
						निजी	बीड़	0.0113
				66	66/1	निजी	वाराणी	0.0753
				161	161/1	सरकार	चरान्द	1.3320
				82	82/1	सरकार	गैर मु० रास्ता	0.0188
		2. सदर	(1) तुनहु	19	19/1	निजी	वाराणी	0.1505
						निजी	रास्ता	0.0376
						निजी	बीड़	0.0075
					19/2	निजी	वाराणी	0.3010
						निजी	बीड़	0.0075
						जोड़-		0.5042
				8	8/1	सरकार	गैर मु० खडड़	0.0489
				18	18/1	सरकार	चरान्द	0.0075
				164/25	164/ 25/2	सरकार	चरान्द	0.3198
				17	17/2	सरकार	गैर मु० सडक	0.0339
				37	37/1	सरकार	गैर मु० खडड़	0.4628
						जोड़-		1.2868
		(2) डलवार		5	5/1	निजी	वाराणी	0.3311
						निजी	बीड़	0.0376
				4	4/1	सरकार	चौई	0.0188
				7	7/1	सरकार	चरान्द	0.4628
				2	2/1	सरकार	झील	0.0527
			(3) पाटा	38	38/1	निजी	वाराणी	0.0151
				71	71/2	निजी	वाराणी	0.0602
						निजी	खडयातर	0.3461
				25	25/1	निजी	वाराणी	0.0903
				40	40/1	निजी	वाराणी	0.1091
						जोड़-		0.1994

राम लाल, श्याम लाल, रमेश कुमार पुत्र व सावित्री देवी पुत्री व श्रीमती रुकमणी भाग बराबर 1463 भाग पत्नी व ओमा देवी 133 भाग पुत्री स्व० भगत राम पुत्र निहाला लोकराज पुत्र चैत राम पुत्र निहाला 1566 भाग प्रेम लाल, रूप लाल पुत्र सुखदेव पुत्र रामदिता भाग बराबर 30 भाग स्थानीय वासी

रोशन लाल बलदेवराज, सुरेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती अच्छरी देवी पत्नी स्व० सन्ता पुत्र गोपी भाग बराबर स्थानीय वासी

कुल भाग 6  
रगी, राम, शंकर दास भाग बराबर 5 भाग पुत्र व श्रीमती कलावती 1 भाग पत्नी स्व० लक्ष्मण पुत्र रामदिता स्थानीय वासी

सुमुन्द पुत्र धन्नु पुत्र गोडू स्थानीय वासी

सरकार हिमाचल प्रदेश  
जंगल चरान्द देहाती  
सरकार हिमाचल प्रदेश  
शारे-आम

कुल भाग 6  
जसवंत सिंह, बलवीर सिंह भाग बराबर 5 भाग पुत्र व श्रीमती लक्ष्मी 1 भाग पत्नी स्व० सन्त राम पुत्र जियणू स्थानीयवासी

सरकार हिमाचल प्रदेश  
कब्जा स्वयं  
सरकार हिमाचल प्रदेश  
चरान्द जंगल देहाती  
सरकार हिमाचल प्रदेश  
शारे-आम  
सरकार हिमाचल प्रदेश  
माखड़ा ऐडिमिनस्ट्रेशन

रोशन लाल, कृष्ण लाल पुत्र हरीमन पुत्र परसराम भाग बराबर स्थानीय वासी

सरकार हिमाचल प्रदेश  
कब्जा सवयम्  
सरकार हिमाचल प्रदेश  
चरान्द जंगल देहाती  
सरकार हिमाचल प्रदेश  
माखड़ा ऐडिमिनस्ट्रेशन

श्रीमती महन्ती पत्नी स्व० हीरा पुत्र फिहना निवासी तनसवाई

कुल भाग 4 निहालू शिवराम पुत्र गंगू पुत्र फिहना भाग बराबर 2 भाग बालक राम पुत्र बंशी पुत्र गंगू 1 भाग श्रीमती बेगमा पत्नी स्व० रामजी पुत्र नामालूम 1 भाग स्थानीय वासी गैर मौरुशियान

श्रीमती महन्ती वर्णित

कुल 5 भाग रामदास लौगू पुत्र साकणू पुत्र मुदुनू भाग बराबर 1 भाग बंसी छोटा निकड़ा मन्ना पुत्र बरडू पुत्र मटुनू भाग बराबर 1 भाग सुन्दर निकड़ा पुत्र कन्हैया पुत्र मटुनू भाग बराबर 1 भाग श्रीमती बोगली पत्नी स्व० जीयणू पुत्र मटुनू 1 भाग कीटा पुत्र मटुनू पुत्र नामालूम 1 भाग स्थानीयवासी गैर मौरुशियान

श्रीमती दुर्गा पुत्री गुरदिहू पुत्र फिहना राहिन निवासी धनसवाई बालक राम पुत्र बंसी पुत्र गंगू 2 भाग निहालू शिवराम पुत्र गंगू पुत्र फिहनु भाग बराबर 4 भाग श्रीमती रोशनी पत्नी स्व० दयाराम पुत्र संगारु 5 भाग निक्का पुत्र संगारु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								पुत्र नामालूम 5 भाग श्रीमती विद्या पुत्री व श्रीमती वेगमा पत्नी स्व० रामजी पुत्र गंगू भाग बराबर 2 भाग श्रीमती शंकरा पत्नी सीता राम पुत्र निहालू 10 भाग स्थानीयवासी मूर्तहिनान
				21	21/2	निजी	वाराणी	0.1204
				26	26/1	निजी	वाराणी	0.1505
						निजी	बंजर कदीम	0.0564
							जोड़—	0.3273
				39	39/1	निजी	वाराणी	0.0451
								कुल भाग 4 श्रीमती महन्ती पत्नी स्व० हीरा पुत्र फिहना 1 भाग श्रीमती दुर्गापुत्री गुरदित् पुत्र फिहना 2 भाग बुधी राम पुत्र कांशी राम पुत्र सुदामा 1 भाग स्थानीय वासी
				123	123/1	निजी	वाराणी	0.0752
						निजी	खड़यातर	0.0225
				124	124/1	निजी	खड़यातर	0.1542
				130	130/1	निजी	बंजर कदीम	0.1467
						निजी	खड़यातर	0.0301
							जोड़—	0.3311
				192/129	192/129/2	निजी	खड़यातर	0.1655
								प्रभूयाम पुत्र साऊणू पुत्र जोती स्थानीय वासी
				112	112/1	निजी	आबादी	0.0112
				125	125/1	निजी	खड़यातर	0.0752
							जोड़—	0.0865
				103	103	निजी	आबादी	0.0113
				111	111/1	निजी	वाराणी	0.0037
						निजी	खड़यातर	0.0112
				119	119/1	निजी	वाराणी	0.0037
				122	122/1	निजी	खड़यातर	0.0903
							जोड़—	0.1202
				43	43/2	निजी	वाराणी	0.2257
								इन्दर सिंह, रतन सिंह पुत्र तुलसी राम पुत्र घनैईया भाग बराबर स्थानीय वासी
				127	127/1	निजी	वाराणी	0.0752
						निजी	खड़यातर	0.1015
				182/106	182/106/1	निजी	आबादी	0.0112
							जोड़—	0.1881
				41	41/1	निजी	वाराणी	0.2257
						निजी	बंजर कदीम	0.0188
				128	128/1	निजी	वाराणी	0.1316
								देवी राम पुत्र मसदी पुत्र लदूरिया स्थानीय वासी
				131	131/1	निजी	खड़यातर	0.1580
				105	105/1	निजी	बंजर कदीम	0.0188
						निजी	आबादी	0.0150
							जोड़—	0.1918
				23	23/1	निजी	वाराणी	0.0301
								कुल भाग 6 बुधी राम पुत्र व श्रीमती हारकू श्रीमती भोटो, श्रीमती मल्लो पुत्रियां व श्रीमती कौली पत्नी स्व० कांशी राम पुत्र सुदामा भाग बराबर 5 भाग इन्दर सिंह गजण सिंह पुत्र श्रीमती दोषी पुत्री कांशी राम भाग बराबर 1 भाग स्थानीय वासी
				24	24/1	निजी	वाराणी	0.0338
								बालक राम पुत्र बशी पुत्र गंगू स्थानीय वासी
				36	36/1	निजी	वाराणी	0.0564
								श्रीमती रोशनी पत्नी स्व० दया राम पुत्र संगारु स्थानीय वासी
				35	35/2	निजी	वाराणी	0.0978
								निकका, हरीसिंह पुत्र संगारु पुत्र थोहला भाग बराबर स्थानीय वासी
				54	54/1	निजी	वाराणी	0.2257
						निजी	खड़यातर	0.1505
						निजी	पत्थर	0.1053
								कुल भाग 20 रणजीत सिंह, दौलत राम, बली राम भाग बराबर 13 भाग पुत्र व बासु देव पुत्र व श्रीमती रोशनी, श्रीमती श्याम देई, श्रीमती रतनी, श्रीमती बन्ती भाग बराबर 5 भाग पुत्रियां व श्रीमती लच्छमी, श्रीमती सुहास भाग बराबर 1 भाग पत्नियां स्व० भगत राम पुत्र हीरू श्रीमती दर्शनु पत्नी स्व० हीरू पुत्र मेहलर 1 भाग स्थानीय वासी
				57	57/1	निजी	वाराणी	0.0188
								कुल भाग 6 पवन कुमार पुत्र व कुमारी पूजादेवी पुत्री व श्रीमती सीतादेवी पत्नी स्व० नन्दकिशोर पुत्र किशन दयाल उपनाम रोटु भाग बराबर 1 भाग

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								मेहरसिंह, रूपलाल पुत्र व श्रीमती कमला देवी, श्रीमती गीता देवी पुत्रिया व श्रीमती शीलादेवी पत्नी स्व० किशन दयाल उपनाम रोदु पुत्र थोहलू भाग बराबर 5 भाग स्थानीय वासी
				102	102/1	आबादी देह	वराणी	0.0112
								आबादी देह कुल 8 भाग पोहलो राम, सुखराम, परसराम प्रभु राम, हरी राम, छोटा, सन्तराम पुत्र व श्रीमती कैली पुत्री लट्ठरिया समभाग 2 भाग तुलसी गोविन्द पुत्र धनेइया पुत्र लट्ठरिया समभाग 2 भाग लैहणू देवी राम, लेख राम पुत्र व श्रीमती मोटो पुत्री व बंजारू पत्नी स्व० मसदी सम भाग 2 भाग निवासी देह
				2	2/1	सरकार	गैर मु० झील	0.1505
						सरकार	खड्ड	0.0338
				9	9/1	सरकार	चरान्द	0.2746
							जोड़-	0.4590
				104	104/1	सरकार	गैर मु० चोई	0.0112
				98	98/1	सरकार	गैर मु० चोई	0.0639
							जोड़-	0.0752
				12	12/3	सरकार	चरान्द	0.3612
				120	120/1	सरकार	चरान्द	0.1994
				180/170/153	180/170/153/6	सरकार	चरान्द	0.0413
				55	55/1	सरकार	चरान्द	0.0564
							जोड़-	0.7638
				27	27/1	सरकार	गैर मु० रास्ता	0.0112
					27/2	सरकार	गैर मु० रास्ता	0.0150
				51	51/1	सरकार	गैर मु० गोहर	0.0639
				121	121/1	सरकार	गैर मु० गोहर	0.0376
				70	70/1	सरकार	गोहर	0.0451
							जोड़-	0.1730
				4	4/1	सरकार	गैर मु० झील	0.1693
								कुल भाग 5000 पजाब सरकार 3118 भाग पैप्पू सरकार 1121 भाग राजस्थान सरकार 761 भाग कब्जा स्वयं

[फा. सं. 11010/2/2012/भू.अ./पकाई-शिमला]

भाया प्रकाश, उप-सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2012

**S.O. 2915(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 1374(E) dated the 18<sup>th</sup> June, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 21 on the stretch of land from Km. 82+000 to Km. 134+500 (Kiratpur –Bilaspur Section) in District Bilaspur in the State of Himachal Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in the news paper "Hindustan Times" (English) and "Danik Jagran" (Hindi) both dated the 09<sup>th</sup> July, 2012; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

4634 GI/12-4

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 82+000 to Km. 134.500 (Kratpur - Bilaspur Section) of the National Highway No. 21 in the state of Himachal Pradesh

Serial number	Name of district	Name of taluk	Name of village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area in hectares	Name of land owners / interested persons
				Before Bifurcation	After Bifurcation				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Bilaspur	1. Shri Naina Devi	(1) Gara	142	142/1	Private	Banjar Kadeem	D.D263	Gambho S/o Gehnu S/o Deviya local resident
				136	136/1	Private	Khadyater	0.0715	Total share 20
				137	137/1	Private	Banjar Kadeem	0.0188	Gurdass Singh, Pritam Singh, Sher Singh equal share 15 share S/o & Smt. Heero 1 share W/o Vishna S/o Nikku - Gurpal Singh, Harpal S/o & Smt. Jasvinder Kaur D/o & Smt. Bhajan Kaur W/o Late Sh. Surjeet Singh S/o Vishna equal share 4 share local resident
					Total			0.0903	
				134	134/1	Private	Banjar Kadeem	0.0188	Makhan Singh, Mahender Singh, Gurcharan Singh S/o Karam Chand S/o Beji Ram equal share local resident
				419	603/419/1	Private	Banjar Kadeem	D.0113	Total share 3 Kuldeep Singh, Dalbir Singh S(s)/o Garja S/o Kapoora equal share 2 share - Praveen Kumar S/o Vijay Pal S/o Garja 1 share Resident of Dhar
				398	398/1	Private	Kotha	0.0075	Total share 2
						Private	Sadak	0.0038	Amit, Gaurav S/o Roshan Lal S/o Shiv
						Private	Varani	D.0753	Dayal equal share 1 share- Roda S/o Dheru
						Private	Banjar Kadeem	D.0865	S/o Gopi 1 share local resident
				200	200	Private	Gair mumkin Machine	0.0225	Tirth Ram S/o Girdhari S/o Munshi local resident
				412/1	412/1	Private	Banjar Kadeem	0.0488	
				411	411/1	Private	Banjar Kadeem	0.0113	
				419	604/419/1	Private	Banjar Kadeem	0.0715	
				419	606/419/1	Private	Banjar Kadeem	D.0452	
					Total			0.1994	
				407/2	407/2/1	Private	Banjar Kadeem	D.0113	Total share 2 Ramesh Chand S/o Amar Nath S/o Hariya 1 share- Praveen Kumar, Uma Dutt, Manish Kumar S/o & Smt. Ram Aasari W/o Late Sh. Thakar Dass S/o Amar Nath equal share 1 share local residents.
				419	605/419/1	Private	Banjar Kadeem	0.0113	Ram Kumar S/o Preeta S/o Hariya local resident
				408	408/1	Private	Banjar Kadeem	0.0075	Prem Lal, Tesh Kumar, Rajender Kumar, Ram Kumar, S/o Preeta S/o Hariya equal share local residents.
				272	272/1	Private	Khadyater	0.0113	Total share 180 Amit, Gaurav S/o Roshan Lal S/o Shiv Dayal equal share 20 share- Roda S/o Dheru S/o Gopi 40 share- Jai Kishan, Jai Ram S/o Daulat Ram S/o Munashi equal share 18 share- Manish Kumar, Vijay Kumar, Karam Chand S/o & Smt. Ram Dulani W/o Late Sh. Gopal Chand S/o Daulat Ram equal share 9 share- Tirth Ram S/o Girdhari S/o Munashi 27 share- Desh Raj S/o Smt. Lachhami D/o Munshi 6 share- Ramesh Chand S/o Amar Nath - S/o Hariya 15 share- Praveen Kumar, Uma Dutt, Manish Kumar S/o & Smt. Ram Aasari W/o Late Sh. Thakar Dass S/o Amar Nath equal share 15 share- Prem Lal, Tesh Kumar, Rajender Kumar, Ram Kumar S/o Preeta S/o Hariya equal share 30 share local resident
				393	393/1	Private	Banjar Kadeem	0.0941	Smt. Tirtho D/o Sohanu S/o Popo local resident

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				556/403	556/403/1	Private	Banjar Kadeem	0.3386	Total share 3 Jagdish, Sat Pal alias Satya Pal, Raj Kumar, Rameshwar S/o Mansha S/o Popo equal share 1 share- Smt. Tirthe D/o Sohanu S/o Popo 1 share- Brahma Nand, Rama Nand, Bala Ram, Parma Nand S/o & Smt Krishna Devi, Saun Dei alias Rane Dei D/o Ramrakha S/o Popo equal share 1 share local resident
				186	186	Private	Banjar Kadeem	D.0413	Rampyara, Roop Lal S/o Balak Ram S/o Jiva equal share local resident
				188	188/1	Private	Gair mumkin Avadi	0.0038	
					Total			0.0452	
				567/414	567/414/1	Private	Banjar Kadeem	0.1279	Total share 28 Shyam Lal, Sucha Ram, Daler, Ram Dev equal share 1 share S/o & Smt. Satya Devi 6 share W/o Late Sh. Prithvi Singh S/o Durga- Smt. Preeto D/o Gurga S/o Nihala 7 share local residents. - Sita Ram, Desh Raj, Chaman Lal, Bal Krishan S/o & Smt. Jamna Devi, Chirago D/o Durga equal share 7 share residents of Daulobal, Tehsil Anandpur Sahib- Roshan, Prabhu S/o Smt. Prakashi D/o Durga equal share 7 share local resident
				404/2	404/2	Private	Banjar Kadeem	0.0075	Lekh Ram, Pyara, Ramkrishan S/o Shakti S/o Preetu equal share local residents.
				404	600/404	Private	Banjar Kadeem	0.0301	Jaswant Singh S/o Harnaam Singh S/o Baba Singh Resident of Bhatoli, Tehsil & Distt. Una
				182	182/3	Private	Khadyater	0.2333	Ramswaroop, Devi Ram, Rampyara S/o Ram Lal S/o Hira equal share residents of Mauda, Tehsil Anandpur Sahib
				179	179/1	Private	Khadyater	0.1505	Ram Lok S/o & Smt. Jeevo W/o Late Sh.
						Private	Banjar Kadeem	0.0715	Banka Ram S/o Ramrakha equal share residents of Mauda,
				438	438/1	Private	Khadyater	D.0790	Tehsil Anandpur Sahib
					Total			0.3010	
				412	602/412	Private	Banjar Kadeem	0.0226	Arjan Singh S/o Jagtaar Singh S/o Banta Singh resident of Behal.
				187	187/1	Private	Gair Mumkin Godam	D.1392	Consumer Cooperative Marketing Board, Himachal Pradesh
				404	598/404/1	Private	Gair Mumkin Petrol Pump	0.0301	Indian Oil Corporation Ltd.
				412	601/412	Private	Gair Mumkin Petrol Pump	0.0376	
					Total			0.0677	
				196	196/1	Private	Awadi Tikka	0.0075	Awadi Deh
				545/100	545/100	Govt.	Gair Mumkin Check Post	0.1880	Government of Himachal Pradesh
				397	397	Govt.	Gair Mumkin Sadak	6.0650	
				552/401	552/401	Govt.	Gair Mumkin Sadak	D.0600	
				402	402	Govt.	Gair Mumkin Sadak	0.5003	
				409	409	Govt.	Sadak	D.0413	
				410	410	Govt.	Sadak	0.3460	
				559/411	559/411	Govt.	Sadak	0.2105	
				561/412	561/412	Govt.	Sadak	0.0225	
				563/413	563/413	Govt.	Sadak	0.2105	
				413/1	413/1	Govt.	Sadak	0.0488	
				413/2	413/2	Govt.	Sadak	0.0038	
				566/414	566/414	Govt.	Sadak	D.2445	
				439	439/1	Govt.	Charand	0.2069	
				440	440/1	Govt.	Charand	0.0715	
				442	442/1	Govt.	Charand	0.3123	
				100	100/5	Govt.	Charand	0.4929	
				544/100	544/100	Govt.	Charand	0.0600	
				135	135/2	Govt.	Charand	0.5230	
				147	147/1	Govt.	Charand	0.0075	
				149	149/1	Govt.	Charand	0.1016	

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				181	181/1	Govt.	Charand	0.0865	
				199	199	Govt.	Charand	0.2408	
				276	276/1	Govt.	Charand	0.1166	
				388	388/2	Govt.	Charand	0.9820	
				389	389/1	Govt.	Charand	0.2145	
				391	391/2	Govt.	Charand	0.2671	
				394	394	Govt.	Charand	0.0375	
				395	395	Govt.	Charand	0.0450	
				396	396/1	Govt.	Charand	0.0263	
				399	399/1	Govt.	Charand	0.0865	
				553/401	553/401	Govt.	Charand	0.0263	
				416	416/1	Govt.	Charand	0.0677	
				420	420/1	Govt.	Charand	0.0452	
					420/2	Govt.	Charand	0.0226	
				565/413	565/413/1	Govt.	Charand	0.0075	
				554/401	554/401/1	Govt.	Charand	0.3311	
				197	197/1	Govt.	Gair mumkin Rasta	0.0038	
				271	271	Govt.	Rasta	0.0753	
				198	198	Govt.	Gair mumkin Johari	0.0113	
				Total				12.4127	
				555/403	555/403/1	Govt.	Gair mumkin Tower	0.0038	Central Government
			(2) Ree	20	20/1	Private	Kohali	0.0301	Smt. Kaushlya, Rattani, Kamala, Prakasho, Satya D/o & Jogindro W/o Late Sh. Naunihal Singh S/o Bhajanu equal share local resident
									Joginder Singh, Haripal Singh S/o Naunihal S/o Bhajanu equal share R/o Bhuwai Gair Maurushi
				19	19	Private	Varani	0.0113	Total share 3
				21	21	Private	Varani	0.0790	Mahender Singh S/o Oaleep Singh S/o Naunihal Singh 1 share- Joginder Singh, Haripal Singh S/o Naunihal Singh S/o Bhajanu equal share 2 share local residents
				23	23/1	Private	Varani	0.0376	
					Total			0.1279	
				18	18/1	Private	Varani	0.0075	Total share 5880
				22	22	Private	Varani	0.0113	Mahender Singh 553 share S/o & Smt. Dhan Kaur alias Mintu D/o & Smt. Tirth Kaur equal share 210 share W/o Late Sh. Tara Singh S/o Ram Karan- Surender Singh 86B share S/o & Smt. Krishani 329 share W/o Late Sh. Ram Karan S/o Durga Dayal- Rattan Singh, Ram Swaroop S/o Durga Dayal S/o Bhajanu equal share 3920 share local residents
					Total			0.0188	
				34	34/1	Private	Varani	0.0263	Total share 906
					34/2	Private	Varani	0.0414	Pawan Singh, Ranjeet Singh S/o Rattan Singh S/o Durga Dayal equal share 1 share- Ramditta, Surat Ram equal share 592 share S/o & Radhe Shyam 302 share S/o Kanshi Ram S/o Ghaniya- Balbir Singh S/o Vachint Singh S/o Lakha Singh 1 share- Balbir Singh S/o Amar Singh S/o Deviditta 4 share- Satish Kumar, Rajesh Kumar S/o Babu Ram S/o Kanshi Ram equal share 2 share- Sub-Health Center 4 share
					Total			0.0677	
				4	4/1	Private	Banjer Kadeem	0.1806	Total share 2634
				6	6/1	Private	Banjer Kadeem	0.4402	Ramditta 878 share S/o & Surat Ram 851 share S/o & Radhe Shyam B21 share S/o Kanshi Ram S/o Ghaniya local residents- Smt. Asha Devi W/o Balak Ram S/o Ram Lal 84 share R/o village Ropa, Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur
					Total			0.6208	
				9	9/1	Private	Banjer Kadeem	0.0263	Smt. Amar Dei W/o Khushi Ram S/o Shiv Ram local resident
									Sukh Ram, Sukh Dev, Sukh Nath, Sant Ram S/o Dasoundhi Ram S/o Anant Ram R/o Bhuvai- Gair Mourishyan
				17	17/1	Private	Banjer	0.1279	Jagdishi Ram, Sat Pal, Raj Kumar, Ramesh



1	2	3	4	5		6	7	8	9
						Private	Kadeem Banjer Kadeem	0.0188	Chand S/o Mansha Ram S/o Pomi Ram equal share local residents.
				16	16/1	Private	Varani	0.0753	Total share 6 Smt. Krishna Devi W/o Haripal Singh S/o Naunihal Singh 5 share- Smt. Rali W/o Late Sh. Hiru S/o Chidwa 1 share local residents.
				15	15/1	Govt.	Nalla	0.0113	Government of Himchal Pradesh ----- Self Occupant
				25	25	Govt.	Gair Mumkin Sadak	2.0355	Government of Himchal Pradesh ----- Occupant PWD Department
				5	5/2	Govt.	Charand	0.3537	Government of Himchal Pradesh ----- Jangal Charand Dehatti
				24	24/1	Govt.	Charand	0.3236	
				773/ 35	773/ 35/1	Govt.	Charand	0.0301	
					773/ 35/2	Govt.	Charand	0.1844	
					<b>Total</b>			<b>0.8917</b>	
			(3) 8huai	451	451/1	Private	Banjer Kadeem	0.0263	Sukh Ram alias Bhola Ram S/o Devi Ditta S/o Kahana local resident.
				456	456/1	Private	Banjer Kadeem	0.0113	Total share 2 Krishan Dayal, Prem Lal, Karam Chand, Chhota Ram S/o & Smt. Baggo Devi, Kumari Mamta Devi D/o & Sheeno Devi W/o & Mehar Singh S/o Late Sh. Gambho S/o Sumund equal share 1 share- Harvansh Lai S/o Ram Rakha S/o Sumund 1 share local resident.
				427	427/1	Private	Varani	D.0075	Sukh Ram, Sukh Dev, Sukh Nath, Sant Ram S/o & Smt. Roshani Devi W/o Late Sh. Dasaondhi S/o Anant Ram equal share local residents.
				448	448/1	Private	Varani	0.2032	
					<b>Total</b>			<b>0.2107</b>	
				453	453	Private	Varani	D.2258	Total share 5 Smt. Chinti, Nikki, Shakuntla D/o Smt. Mahanti D/o Gehanu equal share 1 share- Bagga Ram S/o Ganu S/o Paras Ram 4 share local residents.
						Private	Gair Mumkin 8eed	D.0075	
				424	424/1	Private	Khadyater	0.0640	Total share 132 Jagat Pal S/o Bagga Ram S/o Gehanu 11 share- Mathra S/o Rohala S/o Heera BB share- Kulbhushan Kumar S/o Manohar Lal S/o Nanak 1 share- Smt. Savita Rani W/o Neelam Kumar S/o Devi Prashad 32 share local residents.
				449	449/1	Private	Varani	D.D865	Lekh Ram S/o Ganga Ram S/o Paras Ram local resident.
				452	452/2	Private	Varani	0.1806	Lekh Ram, Raghu S/o Ganga Ram S/o Paras Ram equal share local resident.
				454	454	Private	Avadi	0.0150	
					<b>Total</b>			<b>0.1957</b>	
				399	399/1	Private	Varani	0.2596	Total share 48 Ranjeet Singh, Darashan Kumar, Shyam Lal S/o & Smt. Nirmala Devi equal share 25 share D/o local residents & Gorakhu 5 share S/o Daya Ram S/o Radhpat- Krishan Dass S/o & Smt. Sheeto D/o Smt. Nikki D/o Radhpat equal share 6 share resident of Tiharli Bagga S/o Sihanu S/o Kaliya 6 share local residents- Punu, Sant Ram alias Nikku S/o Shiv Ram S/o Kaliya equal share 6 share resident of Tiyyun ----- Total share B Ranjeet Singh, Gorakhu, Darashan Kumar, Shyam Lal, Kumari Nirmala Devi, Smt. Giano Devi equal share 6 share- Bagga 1 share S/o Sant Ram alias Nikku equal share 1 share shareholder through Hem Raj S/o Ganesha S/o Jiyunu Mustri Possession Mustri
				423	423/1	Private	Khadyater	0.0075	
					423/2	Private	Khadyater	0.0075	
					<b>Total</b>			<b>0.2747</b>	
				422	422/1	Govt.	Gair mumkin	D.0414	Government of Himachal Pradesh ----- Possession - Self
				426	426/1		Choe	0.0301	
								<b>0.0715</b>	
				439	439/1	Govt.	Sadak	1.7534	Government of Himachal Pradesh

4634 GI/12-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				393	393/1	Govt.	Sadak	0.1204
					Total			1.8738
				370	370/1	Govt.	Charand	0.1768
				425	425/1	Govt.	Charand	0.8993
				455	455	Govt.	Charand	0.6283
				464	464/1	Govt.	Charand	0.5042
					Total			2.2086
			(4) Mehla	225	225/1	Private	Varani	0.0226
						Private	Beed	0.0151
				277	277/1	Private	Banjer Kadeem	0.0790
				278	278	Private	Banjer Kadeem	0.0753
				280	280/1	Private	Banjer Kadeem	0.1317
					280/3	Private	Banjer Kadeem	0.0226
					Total			0.3085
				212	212/1	Private	Bageecha Varani	0.0301
				229	229/1	Private	Varani	0.0753
						Private	Beed	0.0452
				279	279/1	Private	Banjer Kadeem	0.0452
						Private	Beed	0.0226
					Total			0.1881
				227	227/1	Private	Varani	0.0339
						Private	Beed	0.0188
						Private	Khadyater	
						Private	Beed	0.0151
								0.0339
								0.0188
								0.0151
				307/236	307/236 /1	Private	Varani	0.0753
					307/236/2	Private	Beed	0.0188
					307/236/3	Private	Varani	0.0151
				303/154	303/154/1	Private	Varani	0.0075
						Private	Banjer Kadeem	0.3763
						Private	Gair mumkin Choe	0.1618
						Private	Beed	0.1881
				168	168/1	Private	Varani	0.0753
						Private	Beed	0.0226
					168/2	Private	Varani	0.0038
					168/3	Private	Varani	0.0075
				243	243	Private	Varani, Rasta, Beed	0.0488
					Total			1.0009
				153	153/1	Private	Banjer Kadeem	0.0677
				169	169/2	Private	Varani	0.0602
				173	173/1	Private	Banjer Kadeem	0.0151
				306/236	306/236	Private	Varani	0.0638
				237	237	Private	Varani Beed	0.0413

-----  
Possession - PWD  
Government of Himachal Pradesh  
-----  
Charand Jangal Dehati  
-----  
Total share 2  
Kanshi Ram S/o Sihanu S/o Magani 1 share- Raghbir Singh, Balbir Singh, Roshan Lal S/o & Smt. Janaki W/o Late Sh. Beli Ram S/o Sihanu equal share 1 share local residents.  
Shambhu W/o Khazana S/o Ghurkan local resident.  
-----  
Amar Nath S/o & Smt. Devaki Devi W/o Late Sh. Lachhman S/o Ganga Ram equal share local residents.  
-----  
Total share 5  
Amar Nath 3 share S/o & Smt. Devaki Devi 2 share W/o Late Sh. Lachhman S/o Ganga Ram local residents.  
-----  
Total share 4  
Kanshi, Nikka S/o Sihanu S/o Magani equal share 1 share local residents- Ramlok, Basant S/o Dundiya S/o Hazaaru equal share 1 share- Sihanu, Munshi S/o Magani S/o Tuma equal share 2 share local residents  
Gair Maurishyan  
Kast Kashi, Nikka equal share 2 share- Basanta, Ramlok equal share 2 share- Babu Ram, Jaikishan, Ram Lal S/o Gambo equal share 1 share- Sihanu, Munshi equal share 6 share- Raghbir, Balbir Singh, Roshan Lal S/o Beli Ram equal share 1 share  
Gair Maurushi  
-----  
Sada Ram S/o Anant Ram S/o Chandu local resident  
-----  
Bhag Singh S/o Ganga Ram S/o Vaziru local resident.

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				238	238	Private	Varani	0.0150	
				239	239	Private	Varani Beed Khadyater	0.0563	
				244	244/1	Private	Varani	0.0075	
					Total			0.3273	
				246	246/2	Private	Varani	0.0339	Nikka S/o Govind S/o Kapoora local resident
						Private	Gair Mumkin Avadi	0.0038	
						Private	Gair Mumkin Beed	0.0113	
				233	233/1	Private	Varani	0.0038	
					Total			0.0527	
				245	245	Private	Varani, Beed, Avadi	0.0338	Smt. Nirmla W/o Nand Lal S/o Gulaba local resident
				171	171/2	Private	Varani	0.0753	Total share 2 Bhag.Singh S/o Ganga Ram S/o Vaziru 1 share- Smt. Nirmla W/o Nand Lal S/o Gulaba 1 share local residents.
									Louhka S/o Sheru S/o Modu local resident Gair Mourushi
				170	170/2	Private	Varani	0.0075	Total share 6
				172	172/1	Private	Banjer Kadeem	0.0038	Santosh Kumar, Shyam Lal equal share 1 share S/o & Smt. Kamala Devi 1 share W/o Late Sh. Amar Nath S/o Louhka- Sita Ram, Balak Ram S/o Louhka S/o Sheru equal share 4 share local residents.
				240	240	Private	Varani, Beed, Khadyater	0.0450	
				241	241	Private	Varani, Beed, Khadyater	0.0525	
				242	242	Private	Varani	0.0038	
					Total			0.1129	
				302/154	302/154/1	Private	Varani	0.6020	Prem Lal, Indru Ram, Ram Lal S/o Govind Ram S/o Mahli Ram equal share R/o Baih Chalon
						Private	Gair mumkin Beed	0.0414	
				258	258/2	Govt.	Gair mumkin Choe	0.2483	Govt. of Himachal Pradesh
				181	181/1	Govt.	Choe	0.0828	Possession- Self
					Total			0.3311	
				11	11/1	Govt.	Charand	1.5013	Govt. of Himachal Pradesh
					11/2	Govt.	Charand	0.0113	
					281	281/1	Govt.	Charand	
					Total			1.5276	
				228	228/1	Govt.	Gair mumkin Rasta	0.0564	Govt. of Himachal Pradesh
									Shaare - Aam
			(5) Thapna	201	201/1	Private	Varani	0.0151	Joginder Singh, Madan Lal, Mahinder Singh, Surender Singh, Dila Ram, Balvir Singh, Satpal, Subhash Chand S/o & Smt. Bishan Dei W/o Late Sh. Durga S/o Sunder equal share local residents.
						Private	Beed	0.0113	
				203	203/2	Private	Varani	0.0263	Kamal Dev, Ashok Kumar S/o & Smt.(s) Nirmla Devi, Babli Devi, Champa Devi, Antti D/o & Savitri Devi W/o Late Sh. Babu Ram S/o Sunder equal share local residents.
						Private	Beed	0.0188	
				196	196/1	Private	Varani	0.0188	Total share 2 Kamai Dev, Ashok Kumar S/o & Smt.(s) Nirmla Devi, Babli Devi, Champa Devi, Antti D/o & Savitri Devi W/o Late Sh. Babu Ram S/o Sunder equal share 1 share- Shambhu S/o Khadku S/o Jaindu 1 share local residents.
				202	202	Private	Varani	0.0188	Total share 3 Kamal Dev, Ashok Kumar S/o & Smt (s) Nirmla Devi, Babli Devi, Champa Devi, Antti D/o & Savitri Devi W/o Late Sh. Babu Ram S/o Sunder equal share 1 share- Shambhu S/o Khadku S/o Jaindu 2 share local residents.
				231	231/1	Private	Varani	0.3499	Jagdish S/o Tikhu S/o Ghanaiya local resident
				186	186/1	Private	Varani	0.0677	Devi Ram S/o & Smt. Devki D/o Grihanu
				197	197/1	Private	Varani	0.1580	S/o Laohka equal share
					Total			0.2258	local residents.
				198	198/1	Private	Banjer	0.0075	Devi Ram S/o & Smt. Devki D/o Grihanu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Kadeem		S/o Laohka equal share local residents.	
					Private	Beed	0.0113	----- Jagdish S/o Tikhu S/o Unknown local resident <i>Gair Maurushi</i>	
				187	187/1	Private	Varani	0.1806	Total share 200 Devj Ram 97 share S/o & Smt. Devki 100 share D/o Grihanu S/o Laohka- Telu Ram S/o Devi Ram S/o Grihanu 1 share Vikas Khand Sadar Bilaspur 2 share
				204	204/1	Private	Varani	0.0865	Smt. Geeta W/o Late Sh. Jeeva S/o Chandu local resident
						Private	Banjer Kadeem	0.0151	
						Private	Beed	0.0452	
				235	235/1	Private	Varani	0.1467	Hari Pal S/o Jaadu S/o Chidva local resident
				236	236/1	Private	Varani	0.0564	
					Total			0.2032	
				229	229/2	Govt.	Gair mumkin Choe	0.0188	Government of Himachal Pradesh ----- Self Occupant
				5	5/1	Govt.	Charand	1.2153	Government of Himachal Pradesh
				237	237/1	Govt.	Charand	0.1016	Charand jangal Dehati
					237/2	Govt.	Charand	0.0301	
					Total			1.3470	
				188	188/1	Govt.	Gair mumkin Rasta	0.0151	Government of Himachal Pradesh
				172	172/2	Govt.	Rasta	0.0188	<i>Shaare-Aam</i>
					172/4	Govt.	Rasta	0.0226	
					Total			0.0903	
				4	4/1	Govt.	Charand	0.0263	Government of Himachal Pradesh
				19	19/1	Private	Kuhai	0.0414	Total share 240 Tulsi S/o Govind S/o Kapoora 5 share- Shunka Ram S/o & Smt. Sukh Dei W/o Late Sh. Lekh Ram S/o Govind equal share 5 share- Joginder Singh, Madan Lal, Mahender Singh, Surender Singh, Dila Ram, Balbir Singh, Satpal, Subhash Chand 230 share
			(6) Samlaytoo	125	125/1	Private	Varani	0.0075	Total Shares 1D Gambho, Nikka S/D Bhandari S/O Jangi 5 Equal Shares Prema, Gorakh Nath, Shravan 4 Equal Shares Son and Smt Geeta Daughter and Smt Vishnu 1 Equal Share Late Nikku S/O Ghehlu Local Resident
				133	133	Private	Kohali	0.0113	0.2069
				153	153/1	Private	Varani	0.0753	
						Private	Banjar Kadeem	0.1129	
					Total			0.2069	
				23	23/1	Private	Varani	0.0339	Thakar Das S/O Ramsaran S/O Tanni Local Resident
				128	128/1	Private	Kohali	0.0113	Shankar Das S/o Ramsaran S/o Tanni Local Resident
				48	48/1	Private	Varani	0.0151	Virender Kumar, Surender Kumar Son and Smt Pushpa Devi W/O Late Bhagat Ram S/O Ramsaran Equal Shares Local Resident
				18	18/1	Private	Banjar Kadeem	0.1580	Dalip Singh S/O Rasran S/O Tani Local Resident
						Private	Gair Mumkin Beed	0.0753	
				130	130/2	Private	Kohali	0.0263	
						Private	GM Bheed	0.0075	
					Total			0.2671	
				124	124/1	Private	Varani	0.0226	Total Shares 3, Lachman Son Chuhdu, s/o Kundo 1 share Ramlal, Krishna Lal, Kuldeep singh, Son & Smt. Soma Devi daughter and Smt. Lachmi Devi W/o Late Chota son, Chuhdu equal share 1 share Avtar singh, suresh singh, Kamal Krishan Son and Kumari Kashmiri Devi, Kumari Parmila Daughters and Shankru Devi W/o Late Devi Ram Son Chuhdu equal share 1 Local resident
				135	135	Private	Kohali	0.0113	Total Shares 16 Prakash Chand 4 Share Son and Smt Gangi 1 Share W/O Sali Gram S/O Ramditta Smt

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Mamta Devi, Smt Pushpa Devi Daughters and Smt Salindra Late Ramesh Chand S/O Sali Gram 3 Equal Share Gopal Singh, Ravinder Kumar S/O Bhagat Ram S/O Ramditta B Equal Shares Local Resident
				134	134	Private	Kohali	0.0075
				48/1	48/1/1	Private	Varani	0.0527
				50	50/1	Private	Varani	0.0151
						Private	Beed	0.0038
				52	52/1	Private	Varani	0.0075
				132	132/1	Private	Kohali	0.0414
					Total			0.1204
				77	77/1	Private	Varani	0.0188
				77/1	77/1/2	Private	Varani	0.0640
						Private	Beed	0.0226
					77/1/3	Private	Varani	0.0075
				80	80/1	Private	Varani	0.0527
						Private	Khadyater	0.0828
						Private	Beed	0.0113
				137	137/2	Private	Kohali	0.0226
						Private	Beed	0.0038
				138	138/1	Private	Kohali	0.0038
					Total			0.2897
				10	10/1	Private	Varani	0.0753
						Private	Gair Mumkin Bheed	0.0151
				13	13	Private	Gair Mumkin Abadi	0.0075
				14	14/1	Private	Varani	0.1505
						Private	Gair Mumkin Bheed	0.0226
						Private	Banjar Kadeem	0.0753
				15	15	Private	Varani	0.0038
						Private	Khalwara	0.0038
				25	25/1	Private	Varani	0.1129
						Private	Bheed	0.0188
					Total			0.4854
				51	51/1	Private	Varani	0.1881
						Private	Gair Mumkin Beed	0.0339
				136	136/2	Private	Kohali	0.0376
					Total			0.2596
				49	49/2	Private	Varani	0.1430
						Private	Makan	0.0113
				78	78	Private	Varani Beed	0.0638
				79	79/1	Private	Khadyater	0.0151
				129	129	Private	Kohali	0.0301
					Total			0.2634
				145	145/1	Private	Banjar Kadeem	0.0564
				149	149/1	Private	Varani	0.3763
						Private	Gair Mumkin Beed	0.0640
								Total Shares 2 Parmanand S/O Jungi S/O Rohli 1 Share Kamaldev, Kuldeep S/O Parmanand S/O Jangi 1 Equal Share Local Resident
								Total Shares 2 Tulsiram S/O Jungi S/O Rohli 1 Share Sitaram, Ashok Kumar S/O Tulsiram S/O Jungi 1 Equal Share Local Resident
								Nikku Son Gauri Son Sardaru Local Resident
								Total Share 144000 Pyarelal 3600 Shares Son and Smt Lajjo 1800 Share D/O Ramsingh S/O Pooran Smt Sanhairu D/O Govinda S/O Kalu 9600 Shares Ratan Singh, Jeetram, Lachhman Singh, Shaligram, Naraindas, Vasudev, Hukamchand S/O Bhagata S/O Prabha 144 Equal Shares Smt Draupadi, Smt Ratani D/O Prabha S/O Jalho 288 Equal Shares Smt Purnu W/O Late Saihja S/O Jalho 14400 Shares Smt Parbatu Late Ganga S/O Kapoora 375 Shares Jaikaran, Vachna, Sukhdev, Prakash, Gyan, Sarwan Son and Smt Sukhdeyi, Smt Kaushalya, Smt Byasa D/O Indru S/D Nandu 144 Equal Shares Chagu Ram, Bali Ram, Ratan Lal S/O Bhagtu S/O Chidwa 37883 Equal Shares Smt Nikki W/O Late Mahantu S/O Chidwa 37883 Shares Hari Pai, Banshi Ram S/O Jaddu S/O Chidwa 37883 Equal Shares

4634 63/12-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Local Resident
				11	11	Private	Avadi Deh	0.0150
				16	16/1	Private	Avadi Deh	0.0188
				148	148/1	Private	Avadi Deh	0.0038
					Total			0.0376
				26	26/1	Govt.	Gair mumkin Choe	0.0339
				56	56/2	Govt.	Gair Mumkin Choe	0.0414
				116	116/2	Govt.	Gair Mumkin Choe	D.0978
					Total			0.1731
				7	7/1	Govt.	Charand	0.0790
								Government of Himachal Pradesh
								Charand Jungle Dehati
			(7) Jabal	6	6/1	Private	Banjer Kadeem	0.1091
						Private	Pather	0.0376
				4	4/1	Private	Khadyater	0.0941
						Private	Pather	0.0188
				40	40/1	Private	Varani	0.0038
						Private	Pather	0.0339
						Private	Lahasa	D.1994
				5	5/1	Govt.	Gair Mumkin Choe	0.0151
				43	43/2	Govt.	Gair Mumkin Choe	0.0151
					Total			0.0301
				41	41/1	Govt.	Charand	0.7638
					41/4	Govt.	Charand	1.1852
				42	42/2	Govt.	Charand	0.1317
					Total			2.0807
				17	17/2	Govt.	Gair Mumkin Rasta	0.0188
					17/3	Govt.	Gair Mumkin Rasta	0.0602
					Total			0.0790
			(8) Kyariya	257/168/2	257/168/1	Govt.	Charand	2.6564
			(9) Sunhan	84	84/1	Private	Varani	0.0677
				4	4/1	Private	Gair mumkin Kuhal	0.0188
				47	47/1	Private	Varani	0.0865
					Total			0.1054
				49	49/1	Private	Varani	0.0452
				46	46/1	Private	Varani	0.2145
				78	78/1	Private	Varani	0.0113
					Total			0.2258
								Ram Lal, Shyam Lal, Ramesh Kumar S/o & Smt. Savitri Devi D/o & Rukmani Devi equal share 1463 share W/o & Oma Devi 133 share D/o late Sh. Bhagat Ram S/o Nihala-Lok Raj S/o Chait Ram S/o Nihala 1566 share- Prem Lal, Roop Lal S/o Sukhdev S/o Ramditta equal share 30 share local residents.
				85	85/1	Private	Banjer Kadeem	0.1731
				83	83/1	Private	Varani	0.2107
						Private	Banjer Kadeem	0.0376
						Private	Khadyater	0.0753
						Private	Beed Khadyater	0.0113
				66	66/1	Private	Varani	0.0753
								Sumundu S/o Dhanu S/o Godu local resident.

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				161	161/1	Govt.	Charand	1.3320	Government of Himachal Pradesh
				82	82/1	Govt.	Gair Mumkin Rasta	0.0188	Jangal Charand Dehati
		2. Sadar	(1) Tunnu	19	19/1	Private	Varani	0.1505	Government of Himachal Pradesh
						Private	Rasta	0.0376	Shaare - Aam
						Private	Beed	0.0075	Total share 6
					19/2	Private	Varani	0.3010	Jaswant Singh, Balbir Singh equal share 5 share S/o & Smt. Lachhmi 1 share W/o Late Sh. Sant Ram S/o Jiyunu local residents.
					Total			0.5042	
				8	8/1	Govt.	Gair Mumkin Khadd	0.0489	Government of Himachal Pradesh
				18	18/1	Govt.	Charand	0.0075	Possession - Self
				164/25	164/ 25/2	Govt.	Charand	0.3198	Government of Himachal Pradesh
				17	17/2	Govt.	Gair Mumkin Sadak	0.0339	Charand Jungle Dehati
				37	37/1	Govt.	Gair Mumkin Khadd	0.4628	Government of Himachal Pradesh
			(2) Dalyaar	5	5/1	Private	Varani	0.3311	Shaare - Aam
						Private	Beed	0.0376	Govt. of Himachal Pradesh
				4	4/1	Govt.	Choe	0.0188	Bhakhra Administration
				7	7/1	Govt.	Charand	0.4628	Roshan Lal, Krishan Lal S/o Hariman S/o Paras Ram equal share local resident
				2	2/1	Govt.	Jheel	0.0527	Government Himachal Pradesh
			(3) Patta	38	38/1	Private	Varani	0.0151	Possession - Self
				71	71/2	Private	Varani	0.0602	Charand Jungle Dehati
						Private	Khadyater	0.3462	Government of Himachal Pradesh
				25	25/1	Private	Varani	0.0903	Bhakhra Administration
				40	40/1	Private	Varani	0.1091	Smt. Mahanti W/o Late Sh. Heera S/o Fihana R/o Tanaswai
					Total			0.1994	Total Share 4
				21	21/2	Private	Varani	0.1204	Nihalu Shivram S/o Gangu S/o Phiyana equal share 2 share Balak Ram S/o Banshi S/o Gangu 1 share Smt. Begam W/o Late Ramji S/o Unknown 1 share Local Resident Gair Mourisiya
				26	26/1	Private	Varani	0.1505	Smt. Mahanti as discribed
						Private	Banjer Kadeem	0.0564	Total share 5
					Total			0.3273	Ram Dass, Longu S/o Saonu S/o Muthunu equal share 1 share- Banshi, Chhota, Nikda, Mansha S/o Bardu S/o Mathunu equal share 1 share- Sunder, Nikda S/o Kanaiya S/o Mathunu equal share 1 share- Smt. Bogali W/o Late Sh. Jiyunu S/o Mathunu 1 share- Kita S/o Mathunu S/o Unknown 1 share local residents Gair Maurushiyon
									Smt. Durgi O/o Gurdittu S/o Fihana Rahin resident of Dhanswai - Balak Ram S/o Banshi S/o Gangu 2 share- Nihalu, Shiv Ram S/o Gangu S/o Fihanu equal share 4 share- Smt. Roshani W/o Late Sh. Daya Ram S/o Sangaru 5 share- Nikka S/o Sangaru S/o unknown 5 share- Smt. Vidya D/o & Smt. Vegma W/o Late Sh. Ramji S/o Gangu equal share 2 share- Smt. Shankari W/o Sita Ram S/o Nihalu 10 share local residents Murthinon
									Total share 2
									Smt. Durgi D/o Gurdittu S/o Fihana 1 share Rahin - Budhi Ram S/o Kanshi Ram S/o Sudama 1 share Rahin local residents- Kanshi Ram S/o Sudama S/o Biru local resident Murthin

4634 GI/12-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				39	39/1	Private	Varani	0.0452	Total share 4 Smt. Mahanti W/o Late Sh. Heera S/o Fihana 1 share- Smt. Durgi D/o Gurdittu S/o Fihana 2 share - Budhi Ram S/o Kanshi Ram S/o Sudama 1 share local residents.
				123	123/1	Private	Varani	0.0753	Paras Ram S/o Saonu S/o Joti
						Private	Khadyater	0.0226	local resident.
				124	124/1	Private	Khadyater	0.1543	Brij Lal, Ram Lal, Prem Singh, Raghubir S/o
				130	130/1	Private	Banjer Kadeem	0.1467	& Smt. Devki Devi D/o Sukh Ram S/o Saonu equal share local residents.
						Private	Khadyater	0.0301	
					Total			0.3311	
				192/129	192/129 /2	Private	Khadyater	0.1656	Prabhu Ram S/o Saonu S/o Joti local resident.
				112	112/1	Private	Avadi	0.0113	Amar Singh, Ranjeet Singh S/o Hari Ram
				125	125/1	Private	Khadyater	0.0753	S/o Jiyunu equal share local residents.
					Total			0.0865	
				103	103	Private	Avadi	0.0113	Chhota S/o Jiyunu S/o Laturiya
				111	111/1	Private	Varani	0.0038	local resident
						Private	Khadyater	0.0113	
				119	119/1	Private	Varani	0.0038	
				122	122/1	Private	Khadyater	0.0903	
					Total			0.1204	
				43	43/2	Private	Varani	0.2258	Inder Singh, Rattan Singh S/o Tulsi Ram S/o Ghanaiya equal local residents.
				127	127/1	Private	Varani	0.0753	Govindu S/o Ghanaiya S/o Laturiya
						Private	Khadyater	0.1016	local resident.
				182/106	182/106/1	Private	Avadi	0.0113	
					Total			0.1881	
				41	41/1	Private	Varani	0.2258	Total share 3
						Private	Banjer Kadeem	0.0188	Dinesh Kumar, Rimple S/o & Smt. Sunita Devi D/o & Smt. Bimla Devi W/o Late Sh. Krishanu Ram S/o Lehanu equal share 1 share - Balak Ram S/o & Smt. Geeta D/o Lehanu S/o Masadi equal share 2 share local residents
				128	128/1	Private	Varani	0.1317	Devi Ram S/o Masadi S/o Laturiya local resident
				131	131/1	Private	Khadyater	0.1580	Lekh Ram S/o Masadi S/o Laturiya
				105	105/1	Private	Banjer Kadeem	0.0188	local resident
						Private	Avadi	0.0151	
					Total			0.1919	
				23	23/1	Private	Varani	0.0301	Total share 6 Budhi Ram S/o & Smt. (s) Dwarku, Bhoto, Mallo D/o & Kaili W/o Late Sh. Kanshi Ram S/o Sudama equal share 5 share- Inder Singh Gajan Singh S/o Smt. Dropti D/o Kanshi Ram equal share 1 share local residents
				24	24/1	Private	Varani	0.0339	Balak Ram S/o Bansi S/o Gangu local resident
				36	36/1	Private	Varani	0.0564	Smt. Roshani W/o Late Sh. Daya Ram S/o Sangaru local resident
				35	35/2	Private	Varani	0.0978	Nikka, Hari Singh S/o Sangaru S/o Thohla equal share local resident
				54	54/1	Private	Varani	0.2258	Total Share 20
						Private	Khadyater	0.1505	Ranjeet Singh, Daulat Ram, Bali Ram equal share 13 share S/o & Basu Dev S/o & Smt. Roshani, Shyam Dei, Rattani, Banti equal share 5 share daughters & Lachhmi, Suharu equal share 1 share W/o Late Sh. Bhagat Ram S/o Hiru- Smt. Darshnu W/o Late Sh. Hiru S/o Mehlar 1 share local resident
						Private	Pathar	0.1054	
				57	57/1	Private	Varani	0.0188	Total share 6 Pawan Kumar S/o & Kumari Pooja Devi D/o & Smt. Sita Devi W/o Late Sh. Nand Kishor S/o Kishan Dayal alias Rothu equal share 1 share- Mehar Singh, Roop Lal S/o & Smt. (s) Kamla Devi, Geeta Devi D/o & Sheela Devi W/o Late Sh. Kishan Dayal alias Rothu S/o



1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Thohlu equal share 5 share local resident
				102	102/1	Avadi Deh	Varani	0.0113
								Avadi Deh
								Total share 6 Pohlo Ram, Sukh Ram, Paras Ram, Prabhu Ram, Harl Ram, Chhota, Sant Ram 5/o & Smt. Kaili D/o Laturiya equal share 2 share- Tulsi, Govindu S/o Ghanaiya 5/o Laturiya equal share 2 share - Lehanu, Devi Ram, Lekh Ram 5/o & Smt. Bhoti O/o & Banjaru W/o Late Sh. Masadi equal share 2 share local resident
				2	2/1	Govt.	Gair mumkin Jheel	0.1505
						Govt.	Khadd	0.0339
				9	9/1	Govt.	Charand	0.2747
					Total			0.4590
				104	104/1	Govt.	Gair mumkin Choe	0.0113
				98	98/1	Govt.	Gair mumkin Choe	0.0640
					Total			0.0753
				12	12/3	Govt.	Charand	0.3612
				120	120/1	Govt.	Charand	0.1994
				180/170 /153	180/170 /153/6	Govt.	Charand	0.0414
				55	55/1	Govt.	Charand	0.0564
					Total			0.7638
				27	27/1	Govt.	Gair mumkin Rasta	0.0113
					27/2	Govt.	Gair mumkin Rasta	0.0151
				51	51/1	Govt.	Gair mumkin Gohar	0.0640
				121	121/1	Govt.	Gair mumkin Gohar	0.0376
				70	70/1	Govt.	Gohar	0.0452
					Total			0.1731
				4	4/1	Govt.	Gair mumkin Jheel	0.1693
								Total share 5000 Punjab Govt. 3118 share Pepsu Govt. 1121 share Rajasthan Govt. 761 share Possession - Self

[F. No. 11010/2/2012/LA/PIU-SM.]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.